

प्रेपिती,

प्रीति भूषण  
सिविलि जज (जू०डि०), टाण्डा  
अम्बेडकरनगर।

रोवा में,

माननीय महा-निवन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा— आदरणीय जनपद न्यायाधीश,  
जनपद अम्बेडकरनगर।

**विषय—** आदरणीय जनपद न्यायाधीश अम्बेडकरनगर श्री अमरजीत त्रिपाठी महोदय द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2019–20 में किये प्रविष्टि में सुधार एवं उच्चीकृत करने हेतु प्रत्यावेदन।

महोदय,

माननीय महोदय अत्यन्त दिनम्रता पूर्वक प्रार्थिनी उपरोक्त विषय में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निम्न निवेदन की अनुमति चाहती हैः—

1. यह कि आदरणीय जनपद न्यायाधीश अम्बेडकरनगर श्री अमरजीत त्रिपाठी महोदय द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2019–2020 जरिए E-Service for judicial officer portal पर दिनांक 15.07.2020 को प्रार्थिनी को प्राप्त कराया गया है। प्रार्थिनी अपना प्रत्यावेदन 30 दिन के अन्दर समर्पित कर रही है।

2. यह कि माननीय महोदय का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना है कि प्रार्थिनी द्वारा पीठासीन अधिकारी के रूप में 2019–2020 के कार्यकाल में कुल 2007 वाद का निस्तारण किया गया है जिसमें से 64 वादों का निस्तारण परीक्षणोपरान्त किया गया है, और प्रार्थिनी द्वारा गम्भीरता से लघि लेकर पर्याप्त संख्या में प्राचीन वादों का निस्तारण किया गया है, जिसमें से 3 वाद 30 वर्ष से प्राचीनतम वादों की सूची में से, 13 वाद 20 वर्ष से प्राचीनतम वाद की सूची में से, 10 वाद 10 वर्ष से प्राचीनवाद की सूची में से और 23 वाद 5 वर्ष से प्राचीनवाद की सूची में से कुल 43 वादों का निस्तारण परीक्षणोपरान्त किया गया है।

3. यह कि माननीय महोदय का ध्यान इस तरफ भी आकृष्ट करना है कि मेरे द्वारा वहाँ पीठासीन अधिकारी सिविल जज (जू०डि०), टाण्डा के न्यायालय में प्राचीनतम वाद

का निस्तारण करते हुए सन् 1978 का 1 निष्पादन वाद निस्तारित किया है, 1984—1, 1985—2, 1987—1, 1989—3, 1990—1, 1991—1, 1992—1, 1993—1, 1994—1, 1995—3, 1996—3, 1997—6, 1998—6, 1999—17, 2000—7, 2001—3, 2002—5, 2003—2, 2004—5, 2005—9, 2006—4, 2007—15, 2008—31, 2009—29, 2010—46, 2011—57, 2012—60, 2013—67, 2014—89 वादों का निस्तारण करते हुए कुल 480 वाद का निस्तारण किया गया है, जिसका उल्लेख मेरे द्वारा अपने आत्मनिर्धारण प्रपत्र में किया गया था, जबकि आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2019—20 के प्रस्तर 01(e) (iii) में प्राचीनतम वादों के निस्तारण में मात्र 62 वादों का निस्तारण अंकित कर 1985—1, 1987—1, 1989—1, 1992—1, 1993—1, 1996—1, 1997—2, 1998—5, 1999—4, 2000—1, 2002—2, 2004—2, 2005—1, 2006—1, 2007—4, 2008—2, 2009—1, 2010—2, 2011—11, 2012—7, 2013—6, 2014—5, वादों का विवरण उल्लिखित किया गया है जोकि तथ्य एवं गणना की त्रुटि है जिस कारण प्रविष्टि में सुधार किया जाना आवश्यक है और उक्त त्रुटि के कारण उचित प्रकार से मेरे कार्य का निर्धारण इस वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2019—20 में आदरणीय जनपद न्यायाधीश अम्बेडकरनगर महोदय द्वारा नहीं किया गया है।

4. यह कि माननीय महोदय का ध्यान इस तरफ भी आकृष्ट कराना है कि मेरे द्वारा 5 निष्पादन वाद का निस्तारण किया गया है जिसमें से 1 निष्पादन वाद सन् 1978 का है जो 40 वर्ष के प्राचीनतम वादों की सूची में से है और जिसका उल्लेख प्रार्थिनी द्वारा अपने आत्मनिर्धारण प्रपत्र में किया गया है जबकि आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा 01(e) (4) में 4 निष्पादन वाद संख्याओं का उल्लेख किया गया है जो कि तथ्य एवं गणना की त्रुटि है।

5. यह कि माननीय महोदय का ध्यान इस तरफ भी आकृष्ट कराना है कि प्रार्थिनी ने सदैव अपने कर्तव्यों का निर्वाहन ईमानदारी (Honesty), लगन (Perseverance), कठिन परिश्रम, साहस, निष्पक्षता एवं पक्षपात रहित होकर किया है और पीठासीन अधिकारी के रूप में 2019 से 2020 के कार्यकाल में 2007 वादों का निस्तारण किया गया है जिसके कारण प्रार्थिनी ने सम्बद्ध आशुलिपिक के साथ निर्धारित मानक 1200 यूनिट से अधिक कार्य का निष्पादन करते हुए 2884.58 यूनिट अर्जित किया है जो मेरे आत्मनिर्धारण प्रपत्र में उल्लिखित है और आदरणीय जनपद न्यायाधीश अम्बेडकरनगर महोदय द्वारा सनसूचित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2019—20 में प्रार्थिनी के योग्यता के सम्पूर्ण निर्धारण (Over all assessment of the merit of the officer) के प्रस्तर 01(n) में प्रार्थिनी को आंकलन "उत्तम" किया है।

6. यह कि माननीय महोदय का ध्यान इस तरफ भी आकृष्ट कराना है कि आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वार्षिक प्रविष्टि 2019-20 में प्रार्थिनी की **Integrity** सत्य निष्ठता संदेह से परे है (**Integrity of the officer beyond doubt**) की टिप्पणी की गयी है, और प्रार्थिनी की निजी चरित्र ऐसा नहीं पाया गया है कि जिसके उसके लोक प्राकलन में निम्नतर बनाये और उसके प्रत्येक पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में प्रतिकूल प्रभाव डाले, प्रस्तर 01(e) (i)(a) में प्रार्थिनी द्वारा वादों की सूची (**Cause list**) उचित रूप से निर्धारित किये जाने की टिप्पणी की है, प्रार्थिनी को अनावश्यक रथगन का परिवर्जन (**Avoidance**) किये जाने का **Remark** दिया गया है, प्रस्तर 01(f) प्रार्थिनी द्वारा तथ्यों एवं विधियों पर पूरी तरह से साधार (**Whole sound**) संयुक्त-युक्त (**Well reasoned**) तथा अच्छी भाषा में व्यक्त (**Expressed in good language**) निर्णय पारित किये गये हैं के सम्बन्ध में **Good Remark** दिया गया है, प्रार्थिनी को अपने न्यायालय तथा प्रभाराधीन कार्यालयों का नियमित निरीक्षण किये जाने का **Remark** दिया गया है व प्रार्थिनी न्यायालय अवधि में न्यायालय में नियमित बैठने (**Sitting on dais**) व सगय की पाबन्दी के साथ समय बद्ध (**Punctual**) होने का उल्लेख किया है।

7. यह कि माननीय महोदय का ध्यान इस तरफ भी आकृष्ट कराना है कि प्रार्थिनी द्वारा सम्पूर्ण न्यायालय समय अवधि में व्यस्त रहने हेतु पर्याप्त वादों को नियत किये जाने की टिप्पणी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2019-20 में की गयी है।

8. यह कि माननीय महोदय का ध्यान इस तरफ भी आकृष्ट कराना है कि प्रस्तर 01(e) (ii) प्रार्थिनी द्वारा पर्याप्त संख्या में वादों में पर्याप्त आधारों पर अन्तिम निषेधाज्ञा रखीकार, अखीकार अथवा बनाये रखा गया है, के प्रस्तर में अंकित किया गया है और उक्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2019-20 में प्रार्थिनी का सह-अधिकारीगण एवं बार के साथ परस्पर व्यवहार व सम्बन्ध को **Good Remark** दिया गया है, और मेरे पदीय कर्तव्य के बावजूद मेरे विरुद्ध कोई शिकायत नहीं पायी गयी है जिसकी अंकना बिन्दु संख्या 01(d) में की गयी है।

उक्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2019-20 के प्रस्तर 01(e) (iii) व 01(e) (iv) की प्रविष्टि में तथ्य एवं गणना की त्रुटि है। अतः त्रुटि का सुधार किये जाने योग्य है।

माननीय महोदय को ससम्मान यह भी अवगत कराना है कि प्रार्थिनी की यह पहली तैनाती है। उक्त प्रविष्टि प्रार्थिनी की फृयूचर कैरियर को प्रभावित करेगा।

### प्रार्थना

अतः माननीय महोदय से ससम्मान विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि प्रार्थिनी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2019-20 में आवश्यक सुधार कर योग्यता के सार्वपूर्ण

निर्धारण को उच्चीकृत करने की कृपा करें जिससे प्रार्थिनी द्वारा सत्य, निष्ठा, लगानी  
निष्पक्षता व निर्भीकता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में उत्साह बना रहे।

### जिसके लिए प्रार्थिनी सदैव करवद्ध अभारी रहेगी।

आपकी महानता होगी।

दिनांक:— 13/08/2020

*प्रीति भूषण*  
19.08.2020  
(प्रीति भूषण)  
सिविल जज (जूड़ि)। टाण्डा  
अम्बेडकरनगर  
जे0ओ0 नं0—02353

#### संलग्न:—

1. वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2019–20 की छाया प्रति
2. आत्म निर्धारण प्रपत्र की छाया प्रति।

### कार्यालय जनपद न्यायाधीश, अम्बेडकरनगर

पत्रांक संख्या:— 920/xx/ जिला जज /अम्बेडकरनगर / दिनांक:— 13. 08. 2020  
/A

अग्रसारित

जनपद न्यायाधीश,  
अम्बेडकरनगर